

Class 6<sup>th</sup>

30.04.2021

CCA TOPIC:- मन की बात

Dear students

आज मैंने CCA में कुछ नया देने का प्रयास किया है। जिस प्रकार prime minister साहब समय समय पर अपने मन की बात करते हैं तो मैंने भी आज सोचा कि मैं भी अपने मन की बात करूँ।

मैं भी कई वर्षों से बालिका विद्यापीठ में अपनी सेवा दे रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से मेरे मन पर विद्यापीठ का राज चलता है। मेरे मन के केंद्र बिन्दु में विद्यापीठ परिवार है इसलिए अपने मन की बात मैं विद्यापीठ परिवार के विषय पर चर्चा करूँगा।

जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए विपरीत परिस्थितियों के बाबजूद भी अपने कार्य में बिना आह भरे हमेशा लगे रहते हैं उसी प्रकार ये माँ रूपी बालिका विद्यापीठ अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस CORONA महामारी के दौरान भी अपनी पूरी क्षमता के साथ विद्यापीठ परिवार के सदस्य चाहे वो

students हो या teachers हो या अन्य कोई भी कर्मचारी, सबके साथ खड़े हैं ।

इस कोरोना रुपी आपदा का सबसे ज्यादा असर कहीं पडा तो वह शिक्षा व्यवस्था पर पडा। आज के समय में अच्छे से अच्छे विद्यालयों का हाल बुरा हो चुका है ।बच्चों के शिक्षा का स्तर गिर रहा है ।शिक्षक को खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं ।इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी विद्यापीठ अपने बच्चो और अपने कर्मचारियो के साथ उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए खड़े हैं इसके लिए मैं रोहित कुमार व्यक्तिगत रूप से इस माँ रुपी विद्यापीठ को प्रणाम करता हूँ ।

आज जिस प्रकार से युद्ध स्तर पर सभी शिक्षक आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए online education platform को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस शिक्षा के साथ जुड़े ।online education में ऐसा माहौल बनने लगा है ऐसा लगता है कि हमलोग पुराने रूप में लौटने लगे इसीलिये ज्यादा से ज्यादा

students visual online class में join करिये एवं इस system को मजबूत करिये ।

धन्यवाद ।

H.w:- सभी students कम से कम 200 शब्दों में अपने मन की बात लिखें ।

Class Tr:रोहित कुमार